



PRICE "LESS" FASHION

Ref: No: CS/S/L-456/2020-21

11th November, 2020

To:
The Listing Department
**NATIONAL STOCK EXCHANGE OF
INDIA LIMITED**
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400 051
Scrip Code: VMART
Fax: 022-26598120
Email: cmlist@nse.co.in

To:
The Corporate Relationship Department
THE BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip code: 534976
Fax: 022-22723121
Email: corp.relations@bseindia.com

Sub: Copies of the newspaper publication

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of the unaudited financial results of the company for the second quarter and half year ended 30th September, 2020 as published in terms of the Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on Wednesday 11th November, 2020 in Business Standard" – English and – "Business Standard" Hindi newspapers.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For V-Mart Retail Limited


Megha Tandon

Company Secretary & Compliance Officer

V-MART RETAIL LTD.
CIN-L51909DL2002PLC163727

Corporate Office : Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area Phase V, Gurugram - 122 016 (Haryana)
Tel. : 0124-4640030, Fax No. : 0124-4640046 • Email : info@vmart.co.in • Website : www.vmart.co.in
Registered Office : 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi- 110092



Gujarat State Petronet Limited
Corporate Identity Number : L40200GJ1998SG035188

Reg. Off.: GSPC Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382010, Gujarat, India. Tel.: +91-79-66701001/23266500
Fax: +91-79-23266506. Website: www.gspcgroup.com E-mail: investors.gsp@gspc.in

NOTICE INVITING TENDER

Gujarat State Petronet Limited (GSPCL) invites bids from competent agencies for "Hiring of Gas Compressor services for Natural Gas Compression at GSPCL's Ratanpar station, near Chollia, Gujarat" vide single stage three part bidding process. Interested bidders can view and bid the Tender Documents, Bid qualification Criteria and Bidding Schedule on <https://gspl.nprocure.com>. Details can also be viewed on GSPCL Website (www.gspcgroup.com/GSPCL).

Details	Date & Time
NIT publication and Date of tender Upload on www.nprocure.com	11.11.2020, 15:00 Hrs IST
Last date for submission of pre-bid queries by bidders	20.11.2020, before 17:00 Hrs IST
Pre-Bid Meeting	24.11.2020, 16:00 Hrs IST (WebEx)
Last Date to Submit online Techno-Commercial Bid	09.12.2020 before 17:00 hrs IST
Online BID opening Date (Primary)	09.12.2020, 18:00 hrs IST

All future announcement related to this tender shall be published on (n)Procure Portal ONLY.

GSPCL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without assigning any reason. GSPCL also reserves the right to reject any or all of the bids received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever.

INDOKEM LIMITED
CIN NO.: L31300MH1964PLC013088

Regd. Office: Plot No. 410/411, Khatau House, Mogul Lane, Mahim, Mumbai 400 016. Tel No.: +91-22-61236767/61236711
Email: iksecretarial@gmail.com Website: www.indokem.co.in

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020
(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended		Half Year ended		Year ended March 31, 2020 (Audited)
	September 30, 2020 (Unaudited)	June 30, 2020 (Unaudited)	September 30, 2019 (Unaudited)	September 30, 2019 (Unaudited)	
1 Total income from operations	1,995	948	2,444	2,943	9,055
2 Profit / (Loss) before tax	66	6	13	72	(91)
3 Profit / (Loss) for the year	66	6	13	72	(91)
4 Total comprehensive income/(loss) net of tax	66	6	13	72	(91)
5 Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	2,433	2,433	2,433	2,433	2,433
6 Reserves					470
7 Earnings per share (EPS) (not annualised)					
Total Earnings per share					
(a) Basic (in Rs.)	0.27	0.02	0.05	0.30	(0.38)
(b) Diluted (in Rs.)	0.27	0.02	0.05	0.30	(0.38)

NOTES:

- The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on November 10, 2020.
- The Company operates in two segments, viz. textile dyes and chemicals and electrical capacitors. However the segment reporting for electrical capacitors is not disclosed separately, as the same does not qualify for separate disclosure as per Ind-AS 108 on operating segments.
- The figures of the previous period(s) / year have been regrouped / reclassified wherever necessary.

For Indokem Limited
Sd/-
Mahendra K Khatau
Chairman & Managing Director
DIN : 00062794

Place : Mumbai
Date : 10/11/2020

PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO PROVISION OF CLAUSE (iv), (v), (vi) AND (ix) OF ANNEXURE A TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIRP/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016

FROM
Kala Rathi D/o Late Sh. Dwarka Das Daga, resident of 28, Sadhana Enclave, Hauz Rani Delhi-110017

Kala Rathi is one of the promoters of Rathi India Limited ("RIL"). RIL was listed on the Delhi Stock Exchange and Jaipur Stock Exchange Limited which has been de-recognised by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Consequently, RIL has been moved to the Dissemination Board ("DB") of the BSE Limited ("BSE"). Rathi India Limited was originally incorporated as a Public Limited Company under the Companies Act, 1956 under the name and style Rathi Gases Limited vide Certificate of Incorporation dated November 25, 1972. The name of company was changed to its present name vide fresh certificate of incorporation dated May 06, 1986. Presently, company is engaged in the business of general commission agent.

Financial and Other Information of RIL's:

- Name of the Company:** Rathi India Limited (CIN: U24111RJ1972PLC001847)
- Registered Office:** Ramkaran Shrama, Nayon Wala, Neem Ka Thana Road, Divaia Modia, Ajjigarh, Alwar Sikar Rajasthan 332742. Ph. No. - 9315658558, E-Mail: drindia14@gmail.com.
- Shareholding:** As on September 30, 2020, the paid up equity share capital of RIL was Rs. 112.50 Lakh comprising of 11,25,000 equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each fully paid up. Out of the total 11,25,000 equity shares issued by RIL, 746,679 equity shares representing 66.37% are held by the Promoters. Kala Rathi holds 156832 equity shares representing 13.94% in RIL and balance 378321 equity shares representing 33.63% are held by public shareholders. As on September 30, 2020, RIL had 1898 Public shareholder folios.
- Summary Financials:** As per its audited financial statements for the last three years and unaudited financial statement for the last six months, RIL's Net Worth and Net Profit/(Loss) after tax was as follows:

Particulars	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	30.09.2020 (Unaudited)
Paid up equity share capital	112.50	112.50	112.50	112.50
Net Worth	111.23	81.18	37.82	37.30
Net Profit/(Loss) After Tax	1.18	0.75	(43.37)	(0.53)

The SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIRP/2016/110 dated October 10, 2016 ("SEBI Circular"), stipulated the procedure and process for exit of Exclusively Listed Companies ("ELC") from the DB. As provided in Clause (i) of Annexure A of the SEBI Circular, RIL and its Promoters on September 28, 2020 have appointed M/s D & A Financial Services (P) Limited, a category I Merchant Banker as an Independent Valuer from BSE's panel of expert valuers. The said Independent Valuer after taking into consideration the applicable valuation methodologies, has issued its Valuation Report dated October 23, 2020 and has determined the fair value of an equity shares of RIL as Rs. 3.36 per share. The Valuation Report will be available for inspection at Registered Office of RIL during office hours for a period of ten days from the date of this Public Announcement.

We are therefore making Exit offer to acquire the shares of the Company from the Public shareholders at a price of Rs. 4.00 per Equity Share ("Exit or Offer Price"), the value being more than determined by the Merchant Banker as stated above. The offer letter along with Blank Transfer Deed is being dispatched to only those public shareholders whose names appear on the register of the shareholders of the Company on November 13, 2020 ("Specified Date").

According to Offer, you may tender your shares at the Exit or offer price along with valid Share Transfer Deed to the address of the Registrar to the Exit offer, as mentioned below:

Skyline Financial Services Private Limited
D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I
New Delhi 110 020 Tel: +91-11-64732681, Email: viren@skylinert.com
Contact Person: Mr. Virender Kumar Rana

The exit offer shall open on **Monday, 23 November 2020** and will close on **Friday, 04 December 2020**. During the tendering period Public shareholders can tender shares as prescribed above.

The shareholders who could not tender their shares within the above mentioned Offer Period, have right to tender the shares up to a period of one year from the date of completion of offer at the same price of Rs. 3.40 per share as determined by the D & A Financial Services Private Limited. The Promoters of RIL hereby declare that they undertake the liability to acquire such shares.

Place: New Delhi Sd/-
Date: November 10, 2020 Kala Rathi (Acquirer)

STAR PAPER MILLS LIMITED
Regd. Office : Duncan House, 2nd Floor, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata 700 001
CIN-L21011WB1936PLC008726 Ph: (033) 22427380-83 Fax: (033)22427383
email: star.sre@starpapers.com, website: www.starpapers.com

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020
(Rs. In Lakhs except earnings per share data)

Sr No.	Particulars	Quarter ended 30th September 2020	Half year ended 30th September 2020	Quarter ended 30th September 2019
		Un-audited	Un-audited	Un-audited
1	Total Income from Operations	5451.88	8084.51	7408.01
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional and/or Extraordinary items)	259.04	287.08	1201.17
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	259.04	287.08	1201.17
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	159.35	186.12	674.20
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	156.44	180.29	663.25
6	Paid-up Equity Share Capital	1560.83	1560.83	1560.83
7	Reserves as shown in the Audited Balance-Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings per Share (of Rs 10/-each)(Not Annualised)			
	(i) Basic	1.02	1.19	4.32
	(ii) Diluted	1.02	1.19	4.32

Notes :

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the stock exchange websites at <http://www.nseindia.com> and at <http://www.bseindia.com> and on the Company's website at <http://www.starpapers.com>.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 9th Nov., 2020.

For Star Paper Mills Ltd.
M. Mishra
Managing Director
DIN : 00096112

Place : New Delhi
Date : 9th November, 2020

SOUTHCO UTILITY
Head Office, Courtpetra, Brahmapur, Ganjam-760004, e-Mail: procurement.southco@southcoodisha.com, Web : www.southcoodisha.com

E-TENDER NOTICE NO. SOUTHCO UTILITY/CRW TITL/33 KV VCB/06/2020 - 21 dtd 10-11-2020

For and on behalf of SOUTHCO UTILITY, sealed e-tenders are invited in two part bidding system for supply of following items from reputed manufacturers/authorised channel partners under Cyclone Restoration Work-TITL.

Item Description	Qty	EMD (in Lakhs)	Cost of Tender Document	Last date of submission of online Bid	Last date of submission of Hard copy
33 KV VCB with CT,PTCR Panel and powerpack including mounting structure	30 nos.	1.75	Rs.11,200/- i.e 10,000+ GST @12%	01.12.2020 upto 5.00 PM.	02.12.2020 upto 1.00 PM.

The interested bidders would be required to enroll themselves on the tender portal www.tenderwizard.com/SOUTHCO from 11.11.2020 (10:00Hrs) onwards. For enrollment & detail enquiry, interested bidders may visit SOUTHCO's website www.southcoodisha.com and www.tenderwizard.com/SOUTHCO.

NB:-All subsequent addendum/Corrigendum to the above tender shall be hosted in SOUTHCO's official web site www.southcoodisha.com and www.tenderwizard.com/SOUTHCO only.
D.G.M.(Procurement & Store)

V-MART
PRICE "LESS" FASHION

Extract of Unaudited Financial Result for the Quarter and Half Year ended 30 Sep 2020

S. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year ended		Year ended 31.03.2020 (Audited)
		30.09.2020 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	
1	Total Income	19,052.04	7,945.63	31,533.58	26,997.87	166,500.28
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,573.58)	(4,535.99)	(2,287.72)	(7,108.55)	300.64
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,573.58)	(4,535.99)	(2,287.72)	(7,108.55)	300.64
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,896.39)	(3,363.72)	(1,804.14)	(5,260.11)	(44.09)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4.80)	(5.05)	(19.17)	(9.89)	(24.80)
6	Paid up equity share capital (face value of ₹10 per share each)	1,017.96	1,016.69	1,015.96	1,017.96	1,015.96
7	Other equity					
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualized) -					
	(a) Basic	(10.44)	(18.52)	(9.94)	(28.96)	(0.24)
	(b) Diluted	(10.44)	(18.52)	(9.94)	(28.96)	(0.24)

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results is available on the Stock Exchanges websites - www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website - www.vmart.com.

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind-AS") as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 10 Nov, 2020

For and on behalf of the Board of Directors of
Sd/-
Lalit Agarwal
Chairman & Managing Director
DIN: 00909000

Place: Gurugram
Date: 10 Nov, 2020

V-MART RETAIL LIMITED
Regd. Off. - 610-611, Gurgaon, Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092.
Corporate Off. - Plot No 3652, Udyog Vihar Industrial Area, Phase - V Gurugram - 122016
Tel. +91-24-4640030; Fax: +91-24-4640046; Email: info@vmart.com;
Website: www.vmart.com; CIN - L51909DL2002PLC163727

SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
Registered Office: 302-303, A Wing, The Qube, CTS No 1498, AZ2, M V Road, Marol, Andhri (East), Mumbai 400059.
(T) +91 22 40381888; (F) +91 22 40381650
Email Id: investor@safari.in, Website: www.safaribags.com, CIN: L25200MH1980PLC022812

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020
(Rs. in lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	Consolidated		
		Quarter Ended		Half year ended
		30-Sep-20 (Unaudited)	30-Sep-19 (Unaudited)	30-Sep-20 (Unaudited)
1	Revenue from Operations	6,294.37	17,131.93	8,306.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,208.02)	908.04	(3,732.72)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,208.02)	908.04	(3,732.72)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(897.02)	820.98	(2,830.01)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(909.22)	791.91	(2,854.65)
6	Paid-up Equity Share Capital	447.28	446.86	447.28
7	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2020	22,614.58		
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 2/- each) (in Rs.) -			
	(a) Basic:	(4.01)	3.68	(12.65)
	(b) Diluted:	(4.01)	3.67	(12.65)

Notes:

- The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 filed with stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results (Standalone & Consolidated) for the quarter and half year ended 30th September, 2020 is available on the Company's website www.safaribags.com under Investor Relations section and on the stock exchanges websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.
- The key standalone financial information is as under:

Sr. No.	Particulars	Standalone		
		Quarter Ended		Half year ended
		30-Sep-20 (Unaudited)	30-Sep-19 (Unaudited)	30-Sep-20 (Unaudited)
1	Revenue from Operations	6,294.37	16,975.73	8,306.20
2	Profit / (Loss) before Tax	(1,207.42)	888.25	(3,731.79)
3	Profit / (Loss) after Tax	(896.42)	801.19	(2,829.08)

For SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
Sudhir Jatia
Chairman & Managing Director
DIN : 00031969

Date : 10th November, 2020
Place : Mumbai

COSMO FILMS
Engineered to Enhance

Innovations for Sustainability

- PACKAGING FILMS
- LABEL FILMS
- LAMINATION FILMS
- SYNTHETIC PAPER

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
(Rs in Crores)

Particulars	Quarter ended 30.09.2020 Unaudited	Quarter ended 30.09.2019 Unaudited	Half year ended 30.09.2020 Unaudited	Half year ended 30.09.2019 Unaudited	Year ended 31.03.2020 Audited
	Total Income from Operations	559.78	555.91	1,041.07	1,096.93
Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	98.77	64.53	191.59	125.15	280.46
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, and/or exceptional items)	73.22	37.73	139.61	74.37	162.84
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	73.22	37.73	139.61	74.37	162.84
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	52.71	28.70	99.70	56.48	113.44
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]*	50.00	32.22	106.48	60.52	112.76
Equity Share Capital	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44
Earning Per Share (of Rs 10 each) (not annualised)					
- Basic:	27.75	14.98	52.49	29.47	59.19
- Diluted:	27.56	14.98	52.13	29.47	59.19

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com).
- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on 10th November 2020 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditors of the company.
- Key numbers of Standalone financial results are as given below. The standalone financial results are available at Company's website.

Particulars	Quarter ended 30.09.2020 Unaudited	Quarter ended 30.09.2019 Unaudited	Half year ended 30.09.2020 Unaudited	Half year ended 30.09.2019 Unaudited	Year ended 31.03.2020 Audited
Income from operation (Gross Sales)	514.07	513.96	969.79	1,021.54	2,032.12
Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	69.89	34.33	136.55	67.18	163.46
Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	49.37	25.29	96.59	49.48	114.04

New Delhi
10th November 2020

Ashok Jaipuria
Chairman

COSMO FILMS LIMITED
Regd. Off : 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025
CIN: L92114DL1976PLC008355,
Tel: 011-49494949, Fax: 011-49494950,
E-mail: investor.relations@cosmofilms.com, www.cosmofilms.com

Governance, ethics and values are tested at every stage at Cosmo Films with customer centricity and employee growth being our focus areas. We strive to meet and exceed the expectation of all our stakeholders and we value their trust and our relationship with them the most.

-Ashok Jaipuria

एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

CIN: L99999HR1994PLC034146

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालॉन इन्स्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500, फॅक्स : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

30/09/2020 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु अनंकेषित वित्तीय परिणामों का विवरण (पृथक्कृत और समेकित)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत			समेकित		
		तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त
		30/09/2020 अनंकेषित	30/09/2019 अनंकेषित	30/09/2020 अनंकेषित	30/09/2020 अनंकेषित	30/09/2019 अनंकेषित	30/09/2020 अनंकेषित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	490.13	2209.29	623.86	490.13	2209.29	623.86
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	(1085.17)	(242.77)	(2350.28)	(1085.17)	(242.77)	(2350.28)
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	(1085.17)	(242.77)	(2350.28)	(1085.17)	(242.77)	(2350.28)
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर बाद (अपवाद मदों के बाद)	(778.12)	(177.54)	(1729.88)	(778.12)	(177.54)	(1729.88)
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	(780.49)	(178.48)	(1734.62)	(780.49)	(178.48)	(1734.62)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1973.37	1973.37	1973.37	1973.37	1973.37	1973.37
7.	संवेद्य (पुनर्मुल्यांकन संवेद्य छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)	(4.00)	(0.91)	(8.89)	(4.00)	(0.91)	(8.89)
	मूल :	(4.00)	(0.91)	(8.89)	(4.00)	(0.91)	(8.89)
	तनुकृत :	(4.00)	(0.91)	(8.89)	(4.00)	(0.91)	(8.89)

नोट्स :
(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.hbestate.com पर उपलब्ध है।
(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 10 नवम्बर, 2020 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
हस्ता./-
अनिल गोयल
(निदेशक)
स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 10/11/2020
DIN: 00001938

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN: L67120HR1994PLC034148

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालॉन इन्स्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500, फॅक्स : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

30/09/2020 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु अनंकेषित वित्तीय परिणामों का विवरण (पृथक्कृत और समेकित)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत			समेकित		
		तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त
		30/09/2020 अनंकेषित	30/09/2019 अनंकेषित	30/09/2020 अनंकेषित	30/09/2020 अनंकेषित	30/09/2019 अनंकेषित	30/09/2020 अनंकेषित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	25.18	201.02	56.73	421.39	362.32	712.99
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	(11.88)	134.44	(25.51)	134.53	84.01	124.48
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	(11.88)	134.44	(25.51)	134.53	84.01	124.48
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात (अपवाद मदों के बाद)	(12.87)	134.32	(26.00)	75.50	81.64	65.11
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	829.69	(770.77)	1609.50	924.28	(239.73)	1719.36
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42
7.	संवेद्य (पुनर्मुल्यांकन संवेद्य छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)	(0.12)	1.25	(0.24)	0.51	0.96	0.40
	मूल :	(0.12)	1.25	(0.24)	0.51	0.96	0.40
	तनुकृत :	(0.12)	1.25	(0.24)	0.51	0.96	0.40

नोट्स :
(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com पर उपलब्ध है।
(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 10 नवम्बर, 2020 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
हस्ता./-
अनिल गोयल
(निदेशक)
स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 10/11/2020
DIN: 00001938

PUBLIC NOTICE

The original title deeds/documents in respect of Property No. 12/168, Malviya Nagar, New Delhi viz. (1) Perpetual Lease Deed in favour of S. Sawaya Singh dated 9th November, 1961 duly registered on 7th May, 1962 as Doc. No. 3553 in Addl. Book No. I, Vol. No. 809 on Pages 128 to 133; (2) Sale Permission Letter dated 31st May 1962; (3) Sale Deed in favour of S. Nanak Singh duly registered on 26th July, 1962 as Doc. No. 4467 in Addl. Book No. I, Vol. No. 520 on Pages 55 to 60; (4) Will of S. Nanak Singh, dated 7th December, 1987 & (5) Mutation letter in favour of S. Sardar Singh in the records of the Land & Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi, dated 05th June 1992 have been lost/misplaced and the same is not traceable, for which the Complaint has also been lodged vide LR No. 724540/2020 dated 10/11/2020. If found, please contact the undersigned.
गुलशन गाबा
समाधान प्रोफेशनल, रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. सं. IBB/I/PA-001/IP-P00548/2017-18/10978
जीएच-13, ब्लैक नंबर 882, परियम विहार, दिल्ली-87
स्थान : नई दिल्ली। तिथि : 10.11.2020
Manmohan Singh s/o Late Sh. Sardar Singh
R/o 12/168, Malviya Nagar, New Delhi-17

शुद्धिपत्र-रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत कंपनी)

सर्वसाधारण का ध्यान रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म 11 के पार्ट नंबर 18 यानी अतिरिक्त की अनिवार्य हेतु आमत्रण पर दिनांक 08.11.2020 को बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) और अंग्रेजी सम्पूर्ण भारत संस्करण) और नवरात्रि (पूर्व संस्करण) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें "निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदित तिथि" को 07.01.2021 के स्थान पर 07.01.2020 के रूप में पढ़ी जाये। अन्य विवरण अपरिचित और अप्रामाणिक रहेंगे।
गुलशन गाबा
समाधान प्रोफेशनल, रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. सं. IBB/I/PA-001/IP-P00548/2017-18/10978
जीएच-13, ब्लैक नंबर 882, परियम विहार, दिल्ली-87
स्थान : नई दिल्ली। तिथि : 10.11.2020

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर,
पुणे - 411005 फोन : 020-25614489
ईमेल: agmmis@mahabank.co.in
एक्स1/सूची/आरएफपी 2020-21/एमआईएस
प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र एमआईएस, आरबीआई एडीएफ (स्वचालित डाटा प्रवाह) परियोजना, आरबीआई एडीएफपी (स्वचालित डाटा एक्सचेंज परियोजना) और आरबीआई सीआईएमएस (केन्द्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली) की आपूर्ति, संस्थापन (इन्स्टॉलेशन), कार्यान्वयन (इंटीग्रेशन), एकीकरण (इंटीग्रेशन) और रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ब्योरे तथा निविदा दस्तावेज 11/11/2020 से बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in> के निविदा खंड में उपलब्ध होंगे। बैंक/बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
सहायक महाप्रबंधक-साफ्टवेयर और एमआईएस
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
दिनांक : 11/11/2020

एम एस टी सी लिमिटेड
MSTC LIMITED
CIN : L27320WB1964GOI026211 ; GSTIN : 19AACCM0021E1Z4
पंजीकृत एवं निर्णयित कार्यालय : 225 सी, ए. जे. सी. बॉस रोड, कोलकाता - 700 020, भारत
वेबसाइट : www.mstcindia.co.in फोन : 2281-9627/3088, ई-मेल : cosec@mstcindia.co.in

30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		3 महीना समाप्त	3 महीना समाप्त	3 महीना समाप्त	6 महीना समाप्त	6 महीना समाप्त	वर्ष समाप्त	3 महीना समाप्त	3 महीना समाप्त	3 महीना समाप्त	6 महीना समाप्त	6 महीना समाप्त	वर्ष समाप्त
		30.09.2020	30.09.2019	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2020
1.	परिचालन से कुल आय	1,428.14	1,854.43	341.70	1,769.84	5,854.38	8,922.08	2,130.02	2,792.77	1,043.69	3,173.71	7,708.20	12,959.98
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर के पूर्व	483.76	373.32	27.23	510.99	760.50	1,294.91	450.15	452.37	4.58	454.73	905.91	1,667.43
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर के पश्चात	339.91	243.82	2.53	342.44	495.75	752.03	287.56	293.28	(27.69)	259.87	584.05	970.14
4.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [शुद्ध लाभ (हानि)] एवं अन्य व्यापक आय (कर के पश्चात)	339.38	248.01	(11.13)	328.25	492.45	717.48	296.97	282.12	(94.18)	202.79	542.65	872.01
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10/-)	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00
6.	अन्य इक्विटी	—	—	—	—	—	2,094.31	—	—	—	—	—	4,035.22
7.	आय प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	मूल (*वार्षिक नहीं)	*4.83	*3.46	*0.04	*4.86	*7.04	10.68	*4.08	*4.17	*(0.39)	*3.89	*8.30	13.78
	मंदित (*वार्षिक नहीं)	*4.83	*3.46	*0.04	*4.86	*7.04	10.68	*4.08	*4.17	*(0.39)	*3.89	*8.30	13.78

प्रत्येक :
1. दिनांक 09 नवंबर, 2020 को उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है एवं अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किये गए तिमाही और छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट यानी www.mstcindia.co.in पर भी उपलब्ध है।
3. 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान कोई असामान्य मदें नहीं थी।
4. वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक हुआ विगत अवधियों के आंकड़ों को पुनर्समीक्षा/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
ह./-
(एस. के. गुप्ता)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08643406

JK Cement LTD.
CIN No. : L17229UP1994PLC017199
Registered & Corporate Office : Kamla Tower, Kanpur-208 001 (U.P.)
Ph. : +91 512 2371478 to 81 ; Fax : +91 512 2399854/ 2332665 ;
website: www.jkcement.com ; e-mail: shambhu.singh@jkcement.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

Sl. No.	Particulars	CONSOLIDATED			
		Three Months Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Three Months Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Three Months Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2020 (Unaudited)
1.	Total Income	1,66,295.30	1,02,497.70	1,33,513.14	2,68,793.00
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	43,908.87	21,234.17	25,646.66	65,271.04
3.	Net Profit for the Period before Tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	32,402.30	9,254.18	13,471.58	41,656.48
4.	Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	32,402.30	9,254.18	13,471.58	41,656.48
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	22,155.78	4,994.64	7,950.59	27,150.42
6.	Total Comprehensive Income for the Period	21,435.75	5,685.06	8,388.37	27,120.81
7.	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not Annualized)				
(i)	Before Extraordinary Items (in ₹)	28.67	6.46	10.29	35.14
(ii)	After Extraordinary Items (in ₹)	28.67	6.46	10.29	35.14

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.jkcement.com.
2. Key Standalone Financial Information:

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			
		Three Months Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Three Months Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Three Months Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2020 (Unaudited)
1.	Total Income	1,57,941.48	98,529.97	1,27,215.46	2,56,471.45
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	41,861.43	21,648.24	25,686.19	63,509.67
3.	Net Profit for the Period before Tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	32,601.33	12,042.69	16,409.61	44,644.02
4.	Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	32,601.33	12,042.69	16,409.61	44,644.02
5.	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	22,352.40	7,768.36	10,879.44	30,120.76
6.	Total Comprehensive Income for the Period	22,320.48	7,736.44	10,901.36	30,056.92
7.	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualized)				
(i)	Before Extraordinary Items (in ₹)	28.93	10.05	14.08	38.98
(ii)	After Extraordinary Items (in ₹)	28.93	10.05	14.08	38.98

3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries (together referred as the "Group") have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements.
For and on Behalf of the Board of Directors

Place : Kanpur
Date : 9th November, 2020
Raghavpat Singhania
Managing Director
DIN No. 02426556

JK SUPER CEMENT BUILD SAFE
JK SUPER STRONG BUILD SAFE CONCRETE SPECIAL
JK SUPER STRONG WEATHER SHIELD
JK CEMENT WhiteMax White Portland Cement
JK CEMENT WallMax White Cement Based Putty
JK CEMENT TileMax Premium Adhesives and Grouts
JK CEMENT Primax White Cement Based Wall Dressing
JK CEMENT ShieldMax Universal Waterproof Putty
JK CEMENT GypsumMax Premium Gypsum Plaster

For Kind Attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email.

V-MART
PRICE "LESS" FASHION

Extract of Unaudited Financial Result for the Quarter and Half Year ended 30 Sep 2020

S. No.	Particulars	Quarter ended			Half Year ended		Year ended
		30.09.2020 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income	19,052.04	7,945.63	31,533.56	26,997.67	77,048.54	166,650.29
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2,573.56)	(4,536.99)	(2,287.72)	(7,108.55)	300.64	6,963.02
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2					